

सामान्य निर्देश :

1. इस प्रश्नपत्र के चार खंड हैं - क, ख, ग, और घ । चारों खंडों के उत्तर देना अनिवार्य है ।
2. प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें ।
3. प्रश्न पत्र में आठ प्रश्न हैं । सभी के अंक उनके सामने अंकित हैं ।
4. वर्तनीगत अशुद्धि का विशेष ध्यान रखें ।

खंड - 'क'

प्रश्न-1 निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए -

(1×15=15)

- 1 रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के उचित भेद का चयन कीजिए
केशव अपना काम अपने-आप कर लेगा ।
(क) पुरुषवाचक सर्वनाम
(ख) निजवाचक सर्वनाम
(ग) संबंधवाचक सर्वनाम
(घ) प्रश्नवाचक सर्वनाम
- 2 रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के उचित भेद का चयन कीजिए
जैसा कर्म करोगे ,वैसा फल मिलेगा
(क) पुरुषवाचक सर्वनाम
(ख) निजवाचक सर्वनाम
(ग) संबंधवाचक सर्वनाम
(घ) प्रश्नवाचक सर्वनाम
- 3 'गंगा' शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है ।
(क) देवन्दी
(ख) भागीरथी
(ग) कृपाण
(घ) मंदाकिनी
- 4 'चतुर' शब्द का पर्यायवाची शब्द है ।
(क) अहंकार
(ख) भागीरथी
(ग) खेतिहर
(घ) निपुण
- 5 'लौकिक' का विलोम होगा -
(क) मूर्ख
(ख) अलौकिक
(ग) अनिश्चित
(घ) अनैतिक

6 'प्रेम'शब्द का विलोम होगा -

- (क) भलाई
- (ख) क्रोध
- (ग) घृणा
- (घ)अक्षम

7 'बाल-भाल' के क्रमशः अर्थ हैं ।

- (क)आकाश-ढेर
- (ख)महल-जोड़
- (ग)सूर्य-नौका
- (घ)केश-माथा

8 गाड़ी-गाढ़ी शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं ।

- (क) वाहन-प्रगाढ़
- (ख) दिवस-गरीब
- (ग) इच्छा-इरादा
- (घ) तपस्या-बलिदान

9 जीने की प्रबल इच्छा । (शब्दों के लिए एक शब्द होगा)

- (क) जिजीविषा
- (ख) ज्वालामुखी
- (ग) जिज्ञासा
- (घ) खंडहर

10 मोहन जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है । (रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा?)

- (क) प्रशंसनीय
- (ख) दीर्घायु
- (ग) जिज्ञासु
- (घ) दुराचारी

11 'गति' के अनेकार्थी होंगे -

- (क) मोक्ष, चाल
- (ख) शरीर, बिजली
- (ग) मछली, मोक्ष
- (घ) मोती, गति

(12) 'नील+आभ' की संधि शब्द है—

- (क) नीलआभा
- (ख) नीलाभा
- (ग) नीलाभ
- (घ) निलाभ

(13) गुरु के अनेकार्थी होंगे -

- (क) अध्यापक, भारी
- (ख) पिता, हालत
- (ग) कुक्षम, भारी
- (घ) अध्यापक, बिजली

(14) नाक में दम करना - मुहावरे का सही अर्थ लिखिए—

- (क) क्रोध करना
- (ख) तैयार होना
- (ग) बहुत तंग करना
- (घ) लज्जित होना

(15) कमर कसना - मुहावरे का सही अर्थ लिखिए—

- (क) चतुर होना
- (ख) काम शीघ्र
- (ग) भाग जाना
- (घ) तैयार होना

खंड ख

2. गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(4×1=4)

एक बार एक राजा ने अकबर से कहा “यदि आप मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि दे दें, तो मैं आपको चतुर मानूँगा। अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से उपाय पूछा। बीरबल ने कहा— “महाराज! मैं छः महीने में एक घड़ा भरकर बुद्धि बना लूँगा ” घर आकर अकबर ने अपने बगीचे में कद्दू का बीज बो दिया। बीज उगे कुछ दिनों के बाद बेल पर छोटे-छोटे फल दिखने लगे। अब बीरबल ने छोटे मुँह वाला एक घड़ा लिया और घड़े को बेल के ऊपर टेढ़ा करके रख दिया। फिर बेल में लगे एक कद्दू को घड़े में डाल दिया। कुछ दिनों बाद कद्दू बढ़ते-बढ़ते उस घड़े में फँस गया। बीरबल ने बेल से काटकर कद्दू को अलग किया और घड़े को अकबर को दिया और कहा, “महाराज यह है घड़ा भरकर बुद्धि, इस घड़े से बुद्धि निकाल लीजिए। याद रखिए घड़ा टूटे नहीं, बुद्धि को साबुत निकाल कर मेरा घड़ा वापस कर दीजिए।”

- (क) राजा ने अकबर से क्या माँगा ?
- (ख) बीरबल ने कितना समय माँगा ?
- (ग) बीरबल कहाँ गया और उसने क्या बो दिया?
- (घ) उपर्युक्त गद्यांश से 'लता' का पर्यायवाची शब्द ढूँढ़कर लिखिए ।

खंड 'ग'

प्रश्न-3 कवि और कविता का नाम लिखकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए ।

(3)

सावधान ! मेरी वीणा में

.....

.....

..... ऐंठी हैं ।

प्रश्न 4 निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए ।

(3)

जब किसी ढब से निकल तिनका गया ।

तब 'समझ' ने यों मुझे ताने दिए ।

ऐंठता तू किसलिए इतना रहा ।

एक तिनका है बहुत तेरे लिए ॥

अथवा

बरसे बदरिया सावन की।

सावन की, मन-भावन की॥

सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की।

उमड़-घुमड़ चहुँदिस से आया, दामिन दमकै झर लावन की॥

प्रश्न 5 वसंत पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए

(2x4=8)

(क) नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

(ख) किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था?

(ग) खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है?

(घ) अप्पू कक्षा में देरी से क्यों पहुँचा ?

(ङ) घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए आस-पास के लोगों ने क्या किया?

प्रश्न-6 बाल महाभारत पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

(2x5=10)

(क) अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की थी?

(ख) शांति दूत बनकर पांडवों की तरफ से कौन गए और कौरवों के सामने क्या प्रस्ताव रखा?

(ग) श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर क्यों जाना चाहते थे ?

(घ) कर्ण की मृत्यु किस प्रकार हुई ?

(ङ) पांडवों की सेना को कितने भागों में बाँटा गया तथा उनके नायक कौन थे?

(च) पांडवों ने अपना अंतिम समय कहाँ और किस प्रकार बिताया ।

खंड 'घ'

प्रश्न-7 विद्यालय में खेल दिवस पर हुई खेल प्रतियोगिताओं का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। (3)

अथवा

व्यायाम के महत्त्व पर सुझाव देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए।

प्रश्न-8 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद 80-100 शब्दों में लिखिए। (4)

(क) स्वास्थ्य ही धन है

(ख) जल ही जीवन है

(ग) मेरी रोचक यात्रा